

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025—फाल्गुन 16 शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार सेन आत्मज श्री गेंद लाल सेन, उम्र 43 वर्ष, जाति नाई, निवासी-बिजली वि. ख.+तहसील फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (छ.ग.) का हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वीणा सेन है जो उसके जन्म प्रमाण व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड में बीना सेन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मेरी पुत्री को वीणा सेन आत्मजा प्रदीप कुमार सेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

बीना सेन
पिता-प्रदीप कुमार सेन
निवासी-बिजली
वि.ख.+तहसील-फिंगेश्वर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

नया नाम

वीणा सेन
पिता-प्रदीप कुमार सेन
निवासी-बिजली
वि.ख.+तहसील-फिंगेश्वर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती धैर्या अठवानी ध. प. मोहित अठवानी निवासी-क्वार्टर नं. 31, आनंद नगर, नियर राधा सोआमी सत्संग बीईएस तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम कु. माधुरी होतचन्दानी पिता हरीश होतचन्दानी था मेरा विवाह दिनांक 19-11-2021 को श्री मोहित अठवानी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती धैर्या अठवानी पति मोहित अठवानी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती धैर्या अठवानी ध. प. मोहित अठवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. माधुरी होतचन्दानी पिता-हरीश होतचन्दानी निवासी-म. नं.-डी-72, प्रतापनगर, शाहगंज, तह. व जिला-आगरा (उत्तरप्रदेश)	श्रीमती धैर्या अठवानी पति-मोहित अठवानी निवासी-क्वार्टर नं.-31, आनंद नगर, नियर राधा सोआमी सत्संग बीईएस तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सावित्री देवी सोनवानी, ध. प. रामधन, उम्र 66 वर्ष, जाति सारथी स्थायी निवासी-अकलतरा, वर्तमान निवासी-बालको नगर कोरबा थाना+बालको तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम सावित्री देवी सोनवानी है जो मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे राजस्व रिकार्ड व ऋण पुस्तिका में मेरा नाम जानकी बाई पिता जेतु दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे सावित्री देवी सोनवानी, ध. प. रामधन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जानकी बाई पिता-जेटु स्थायी निवासी-अकलतरा, वर्तमान निवासी-बालको नगर, कोरबा, थाना-बालको तह. व जिला-कोरबा (छ.ग.)	सावित्री देवी सोनवानी पति-रामधन स्थायी निवासी-अकलतरा, वर्तमान निवासी-बालको नगर, कोरबा, थाना-बालको तह. व जिला-कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती इडिथ चलम ध. प. स्व. अरविन्द चलम, जाति इसाई, निवासी-शांति नगर, वार्ड 25, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) की हूँ। मेरा वास्तविक नाम इडिथ चलम (Edith chalam) है जो कि मेरे पैनकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम इडीन चलम (Idin chalam) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे इडिथ चलम ध. प. स्व. अरविन्द चलम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
इडीन चलम (Idin chalam)	इडिथ चलम (Edith chalam)
पति-अरविन्द चलम	पति-स्व. अरविन्द चलम
निवासी-शांति नगर, वार्ड -25	निवासी-शांति नगर, वार्ड -25,
जगदलपुर	जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)	जिला-बस्तर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता वासनिक ध. प. जयराम वासनिक, उम्र 48 वर्ष, निवासी-टेकापार कला, तहसील खैरागढ़ जिला के.सी.जी. (छ.ग.) की हूँ। मेरा वास्तविक नाम ममता वासनिक पति जयराम वासनिक है जो कि मेरे मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में बेलाबाई वासनिक पति जयराम वासनिक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे ममता वासनिक ध. प. जयराम वासनिक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
बेलाबाई वासनिक	ममता वासनिक
पति-जयराम वासनिक	पति-जयराम वासनिक
निवासी-टेकापार कला	निवासी-टेकापार कला
तहसील-खैरागढ़	तहसील-खैरागढ़
जिला-के.सी.जी. (छ.ग.)	जिला-के.सी.जी. (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छत्रपाल यादव आत्मज सुधेराम यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी-करमंदी, तहसील भैसमा जिला कोरबा (छ.ग.) का हूँ। मैं सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। मेरा, मेरे पिता व माता का वास्तविक नाम Chhatrapal Yadav आ. Sudhe Ram Yadav माता Mahetrin Bai Yadav है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Chhatrapal Yadav आ. Sudhe Ram Yadav माता Mahetrin Bai Yadav दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे छत्रपाल यादव (Chhatrapal Yadav) आत्मज सुधेराम यादव (Sudhe Ram Yadav) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Chhatrapal Yadav
पिता- Sudhe Ram Yadav
माता-Mahetrin Bai Yadav
निवासी-करमंदी,
तहसील-भैसमा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

नया नाम

छत्रपाल यादव
(Chhatrapal Yadav)
पिता-सुधेराम यादव
(S/o-Sudhe Ram Yadav)
माता-Mahetrin Bai Yadav
निवासी-करमंदी,
तहसील-भैसमा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोहित प्रसाद गुप्ता आत्मज श्री राज किशोर गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, निवासी-शीतला पारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड नम्बर 24, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ मेरे पुत्र व मेरा वास्तविक नाम सत्यम गुप्ता आ. रोहित प्रसाद गुप्ता है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में छोट्टु कुमार गुप्ता आ. रोहित कुमार गुप्ता दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को सत्यम गुप्ता आत्मज रोहित प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

छोट्टु कुमार गुप्ता
पिता-रोहित कुमार गुप्ता
निवासी-शीतला पारा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल
वार्ड नम्बर-24, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

सत्यम गुप्ता
पिता-रोहित प्रसाद गुप्ता
निवासी-शीतला पारा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल
वार्ड नम्बर-24, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विद्या शंकर दुबे आत्मज श्री तप नारायण दुबे, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्रास स्ट्रीट 03, प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम विद्या शंकर दुबे (Vidhya Shankar Dubey) है जो मेरे आधार कार्ड व मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री अदिती दुबे के कक्षा 10वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Vidya Shankar Dubey दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे विद्या शंकर दुबे (Vidhya Shankar Dubey) आत्मज श्री तप नारायण दुबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

विद्या शंकर दुबे
(Vidya Shankar Dubey)
पिता-श्री तप नारायण दुबे
(S/o-Shri Tap Narayan Dubey)
निवासी-क्रास स्ट्रीट-03,
प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

विद्या शंकर दुबे
(Vidhya Shankar Dubey)
पिता-श्री तप नारायण दुबे
(S/o-Shri Tap Narayan Dubey)
निवासी-क्रास स्ट्रीट-03,
प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गौरव शर्मा आत्मज स्व. रमेश चंद्र शर्मा, उम्र 41 वर्ष, निवासी-वार्ड क्रं. 14, ग्राम उरला, अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दुष्यंत शर्मा है जो उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड में डु शर्मा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को दुष्यंत शर्मा आत्मज गौरव शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

डु शर्मा
पिता-गौरव शर्मा
निवासी-वार्ड क्रं.-14,
ग्राम-उरला, अभनपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

दुष्यंत शर्मा
पिता-गौरव शर्मा
निवासी-वार्ड क्रं.-14,
ग्राम-उरला, अभनपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रीना सिंह ध. प. स्व. लवकेश कुमार सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी-वार्ड नम्बर 16, नवापारा, अम्बिकापुर थाना+तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) की हूँ। पूर्व में मेरा नाम रीना सिंह (Rina Singh) था जो मेरे पुत्र के कक्षा 10वीं व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रीना सिंह (Reena Singh) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे रीना सिंह (Reena Singh) ध. प. स्व. लवकेश कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रीना सिंह
(Rina Singh)
पति-स्व. लवकेश कुमार सिंह
निवासी-वार्ड नम्बर-16,
नवापारा, अम्बिकापुर
थाना+तहसील-अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

नया नाम

रीना सिंह
(Reena Singh)
पति-स्व. लवकेश कुमार सिंह
निवासी-वार्ड नम्बर-16,
नवापारा, अम्बिकापुर
थाना+तहसील-अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमर अरोरा आत्मज जगजीत सिंह अरोरा, निवासी-एच.आई.जी. 26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ। पूर्व में मेरा नाम अमरदीप सिंह अरोरा था जो कि मेरे पासपोर्ट, पैनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अमर अरोरा रख लिया हूँ, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरे पिता का लघु नाम जे.एस. अरोरा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे नये नाम तथा मेरे पिता के पूर्ण नाम को मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अमर अरोरा आत्मज जगजीत सिंह अरोरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अमरदीप सिंह अरोरा
(Amardeep Singh Arora)
पिता-जे. एस. अरोरा
(J.S. Arora)
निवासी-एच.आई.जी.-26, सेक्टर-1,
शंकर नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

अमर अरोरा
(Amarr Arora)
पिता-जगजीत सिंह अरोरा
(S/o-Jagjit Singh Arora)
निवासी-एच.आई.जी.-26, सेक्टर-1,
शंकर नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिमर अरोरा ध.प. श्री अमर अरोरा निवासी-एच.आई.जी. 26, सेक्टर 1, शंकर नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की हूँ। मेरे पति का वास्तविक नाम अमर अरोरा है, मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गुनीत कौर अरोरा पति अमरदीप सिंह अरोरा दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सिमर अरोरा ध.प. अमर अरोरा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे सिमर अरोरा ध.प. श्री अमर अरोरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
गुनीत कौर अरोरा (Guneet Kour Arora) पति-अमरदीप सिंह अरोरा (W/o-Amardeep Singh Arora) निवासी-एच.आई.जी.-26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	सिमर अरोरा (Simar Arora) पति-श्री अमर अरोरा (W/o-Shri Amarr Arora) निवासी-एच.आई.जी. 26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमर अरोरा आत्मज जगजीत सिंह अरोरा, निवासी-एच.आई.जी. 26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ। पूर्व में मेरे पुत्र का नाम मनवीर सिंह अरोरा आ. अमरदीप सिंह अरोरा था जो कि उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम अमर अरोरा है, मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अविर अरोरा आ. अमर अरोरा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को अविर अरोरा आत्मज अमर अरोरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
मनवीर सिंह अरोरा (Manveer Singh Arora) पिता-अमरदीप सिंह अरोरा (S/o-Amardeep Singh Arora) निवासी-एच.आई.जी.-26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	अविर अरोरा (Avir Arora) पिता-अमर अरोरा (S/o-Amarr Arora) निवासी-एच.आई.जी.-26, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोनालिसा दास ध. प. श्री सिद्धार्थ दास, उम्र 49 वर्ष, निवासी-इंदिरा गांधी वार्ड, स्टेशन रोड़, गुरुद्वारा के पीछे, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) की हूँ। मेरा वास्तविक नाम सोनालिसा दास पति सिद्धार्थ दास है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पासपोर्ट में मेरा घरेलू नाम Sona Das दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे सोनालिसा दास ध. प. श्री सिद्धार्थ दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सोना दास (Sona Das) पति-श्री सिद्धार्थ दास निवासी-इंदिरा गांधी वार्ड, स्टेशन रोड़, गुरुद्वारा के पीछे, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)	सोनालिसा दास (Sonalisa Das) पति-श्री सिद्धार्थ दास निवासी-इंदिरा गांधी वार्ड, स्टेशन रोड़, गुरुद्वारा के पीछे, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुद्रिका प्रसाद कुशवाहा आत्मज स्व. रामकिशोर कुशवाहा, उम्र 62 वर्ष, जाति काछी, निवासी-सीनियर एमआईजी-डी-210, न्यू राजेन्द्र नगर, विजेता काम्पलेक्स, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम मुद्रिका प्रसाद कुशवाहा है जो कि मेरे आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मुद्रिका प्रसाद काछी दर्ज है। जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मुद्रिका प्रसाद कुशवाहा आत्मज स्व. रामकिशोर कुशवाहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
मुद्रिका प्रसाद काछी (Mudrika Prasad Kachhi) पिता-स्व. रामकिशोर कुशवाहा निवासी-सीनियर एमआईजी-डी-210, न्यू राजेन्द्र नगर, विजेता काम्पलेक्स, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	मुद्रिका प्रसाद कुशवाहा (Mudrika Prasad Kushwaha) पिता-स्व. रामकिशोर कुशवाहा निवासी-सीनियर एमआईजी-डी-210, न्यू राजेन्द्र नगर, विजेता काम्पलेक्स, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुधा वर्मा ध. प. मुकेश कुमार वर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 47, संगम चौक, स्मॉल वाटर टैंक, शिव मंदिर नया खुर्सीपार, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ पूर्व में मेरा नाम सुधा सेन पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद सेन था तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 23-11-2023 को मुकेश कुमार वर्मा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सुधा वर्मा रख ली हूँ जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे सुधा वर्मा ध. प. मुकेश कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुधा सेन (Sudha Sen) पिता-भुवनेश्वर प्रसाद सेन (D/o- Bhuneshwar Prasad Sen) निवासी-वार्ड नं.-47, संगम चौक, स्मॉल वाटर टैंक, शिव मंदिर नया खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	सुधा वर्मा (Sudha Verma) पति-मुकेश कुमार वर्मा (W/o- Mukesh Kumar Verma) निवासी-वार्ड नं.-47, संगम चौक, स्मॉल वाटर टैंक, शिव मंदिर नया खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

SURNAME CHANGE

It is hereby notified for the information of all Authorities concerned and the public that. I Akhilesh Kumar son of Mohan Lal Daharia aged 32 years a resident of-House No. L00214, VV Vihar, Street No. A1, Beside VIP Karishma, Saddhu, District Raipur (C.G.) Pin 492014. Earlier my name was Akhilesh Kumar Daharia which is recorded in the all educational certificates, Aadhar card, PAN card, driving license and other governmental documents. I am also known as Akhilesh Daharia. I have change my name to the new name Akhilesh Kumar. I have submitted an affidavit to the competent authority regarding registering my changed new name in all my government and semi-governments record, documents.

Hereafter I will be Known by the name Akhilesh Kumar son of Mohan Lal Daharia in future for all purposes.

OLD NAME	NEW NAME
Akhilesh Daharia, Akhilesh Kumar Daharia S/o-Mohan Lal Daharia Add- House No.-Loo214, VV Vihar, Street No.-A1, Beside VIP Karishma, Saddhu, Distt.-Raipur (C.G) Pin-492014	Akhilesh Kumar S/o-Mohan Lal Daharia Add- House No.-Loo214, VV Vihar, Street No.-A1, Beside VIP Karishma, Saddhu, Distt.-Raipur (C.G) Pin-492014

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लता यादव ध. प. राकेश यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी-मकान नं. 384/2, शहीद वीर नारायण सिंह नगर, शीतला मंदिर, वार्ड नं. 28, खुर्सीपार, भिलाई पावर हाउस, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ। मेरी पुत्री, पति व मेरा वास्तविक नाम सिद्धिका यादव आ. राकेश यादव माता लता यादव है जो कि हमारे आधार कार्ड व मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु उसके दाखिल पंजी व कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कु. सिद्धिका यादव आ. श्री राकेश कुमार यादव माता श्रीमती लता यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को सिद्धिका यादव आत्मजा राकेश यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कु. सिद्धिका यादव
पिता-श्री राकेश कुमार यादव
माता-श्रीमती लता यादव
निवासी-मकान नं.-384/2,
शहीद वीर नारायण सिंह नगर,
शीतला मंदिर, वार्ड नं.-28,
खुर्सीपार, भिलाई पावर हाउस,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

सिद्धिका यादव
(Siddhika Yadav)
पिता-राकेश यादव
(D/o- Rakesh Yadav)
माता-लता यादव
(M/o- Lata Yadav)
निवासी-मकान नं.-384/2,
शहीद वीर नारायण सिंह नगर,
शीतला मंदिर, वार्ड नं.-28,
खुर्सीपार, भिलाई पावर हाउस,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यशवंत यादव आत्मज बुधराम यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी-रूआबांधा बस्ती, वार्ड नं. 54, शिव नगर, दुधे राम यादव मिल्क डेयरी, रूआबांधा भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। मेरा वास्तविक नाम यशवंत यादव है। मेरे पिता व माता का वास्तविक नाम बुधराम यादव, माता अश्वनी बाई है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, दाखिल पंजी, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में यशवंत आ. बुधराम माता अश्वनी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे यशवंत यादव आत्मज बुधराम यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

यशवंत
(Yashwant)
पिता-बुधराम
(S/o-Budhram)
माता-अश्वनी
(M/o-Ashwani)
निवासी-रूआबांधा बस्ती,
वार्ड नं.-54, शिव नगर,
दुधे राम यादव मिल्क डेयरी,
रूआबांधा भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

यशवंत यादव
(Yashwant Yadav)
पिता-बुधराम यादव
(S/o-Budhram Yadav)
माता-अश्वनी बाई
(M/o-Ashwani Bai)
निवासी-रूआबांधा बस्ती,
वार्ड नं.-54, शिव नगर,
दुधे राम यादव मिल्क डेयरी,
रूआबांधा भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ.ग.)
(तहसील कार्यालय परिसर, शास्त्री चौक, जी.ई.रोड, रायपुर)

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक 202501111000431/ब-113 (1)/वर्ष 2024-25

क्रमांक/800/अ.वि.अ. /पं.सा.न्या./2025.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बृजलाल गोयल पिता श्री प्यारेलाल गोयल, ट्रस्टी, शान्ती राधे फाऊन्डेशन निवासी बी-1, बी ब्लॉक, प्रथम तल, वालफोर्ट इन्क्लेव फेस-1, पचपेड़ीनाका, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा “श्रीराम मंदिर सेवा ट्रस्ट” पता वी.आई.पी. रोड श्रीराम मंदिर, विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास/पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और सम्पत्ति का विवरण)

- पब्लिक ट्रस्ट का नाम :- “श्रीराम मंदिर सेवा ट्रस्ट”
एवं पता वी.आई.पी. रोड, श्रीराम मंदिर, विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)
- चल संपत्ति :- राशि रुपये-50,000/-
(अक्षरी-पचास हजार रुपये)
- अचल संपत्ति :- निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 21-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(नंदकुमार चौबे)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं पंजीयक लोक न्यास

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन

लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

फाइल संख्या-सीजीसीएसपी/प्रकाशन/दिसंबर/02, दिनांक 15-12-2024

भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

पत्र क्र. भा.हि.सं.शि.प./2020/जुलाई

नई दिल्ली, दिनांक 01-07-2020

प्रस्तावना

भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है। परिषद् की स्थापना नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आनलाइन मोड से देश एवं विदेशों में करने के लिए स्वायत्तशासी निकास के रूप में स्थापना किया गया है।

समाज में कमजोर वर्गों, वंचित समूहों, स्कूल ड्राप आउट बच्चों की संख्या अधिक है जो अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनकी शिक्षा पूरा करने में काउंसिल मददगार साबित होगी। उनके लिए सरल एवं सुगम शिक्षा उपलब्ध काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है।

भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का स्थापना हिन्दी एवं संस्कृत भाषा के विकास एवं संवर्धन के लिए किया गया है।

01. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- I. इस नियम का संक्षिप्त नाम “भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् नियम 2020” है।
- II. यह भारत एवं विदेशों तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- III. यह 01-07-2024 से प्रवृत्त है।

02. परिभाषाएं :-

- I. काउंसिल/बोर्ड :- काउंसिल/बोर्ड से अभिप्राय “भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद्” होगा।
- II. अध्यक्ष/सचिव :- अध्यक्ष/सचिव से अभिप्राय भारतीय हिन्दी एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष एवं सचिव निर्वाचित या मनोनित।
- III. पंजीकृत कार्यालय :- पंजीकृत कार्यालय से अभिप्राय काउंसिल का पंजीकृत कार्यालय कस्तुरबा गांधी विद्यालय परिसर, ईश्वर नगर, न्यु फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली होगा।
- IV. प्रधान कार्यालय :- प्रधान कार्यालय से अभिप्राय काउंसिल का मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय नई दिल्ली में और काउंसिल द्वारा निर्धारित किसी भी स्थान में हो सकेगा।
- V. शैक्षणिक वर्ष :- शैक्षणिक वह होगा जिसे काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- VI. संबद्धता :- संबद्धता से तात्पर्य काउंसिल से अधिकृत रिजनल सेंटर, अध्ययन केंद्र, सूचना केंद्र आदि होगा जो भारत एवं भारत के बाहर हो सकेगा जहां काउंसिल के सभी पाठ्यक्रमों का नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आनलाइन मोड से अध्ययन अध्यापन कार्य होगा।
- VII. बोर्ड/काउंसिल मैनेजमेंट :- काउंसिल के सफल संचालन के एक मैनेजमेंट समिति होगा जो काउंसिल के समस्त कार्यों का संचालन कराएगा।
- VIII. सेंटर :- सेंटर से अभिप्राय काउंसिल द्वारा अधिकृत केंद्र होगा जहां पर काउंसिल के नाम से आवेदन पत्र एवं शुल्क एकत्र किया जायेगा।

- IX. परीक्षा :- काउंसिल द्वारा समस्त माध्यम नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन लाइन मोड के छात्र-छात्राओं का निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार काउंसिल के परीक्षा सामग्री के माध्यम से निर्धारित स्थान में परीक्षा आयोजित किया जावेगा.
03. प्रबंधन बोर्ड का गठन :-
- यह कि काउंसिल की प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
- I. अध्यक्ष
 - II. उपाध्यक्ष
 - III. तीन शिक्षाविद्
 - IV. प्रयोजित निकाय के दो प्रतिनिधि
 - V. प्रायोजिक निकाय द्वारा नियुक्त सचिव
04. प्रबंधन बोर्ड का कार्यकाल :-
- I. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा.
 - II. अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष नहीं हैं, सदस्य हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने पर पुर्ननियुक्ति हो सकते हैं.
 - III. किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित अवधि के नियुक्त किया जावेगा.
05. अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों का इस्तीफा :-
- I. अध्यक्ष या सचिव अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसके लिए लिखित में प्रायोजित विभाग को लिखित में सूचना देना होगा.
 - II. कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष को लिखित में सूचना दे सकते हैं और सूचना उपरांत वह पद रिक्त माना जावेगा.
06. अयोग्यताएं :-
- I. वह व्यक्ति पागल, दिवालिया घोषित किये जाने पर.
 - II. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किये जाने पर.
 - III. किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को बढ़ावा देने पर.
07. काउंसिल के बैठक:-
- I. यह कि काउंसिल की कार्यकारणी बैठक काउंसिल के प्रधान कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, अध्यक्ष/सचिव के निवास स्थान अथवा ऐसे स्थान पर बैठक हो सकेगी जिसे अध्यक्ष/सचिव निर्धारित करेंगे.
 - II. यह कि काउंसिल की कार्यकारणी की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी.
 - III. काउंसिल की बैठक के लिए कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को कोरम के रूप में माना जावेगा.
 - IV. काउंसिल का सचिव बोर्ड की बैठक कि तिथि से दस दिवस पूर्व नोटिस जारी कर सकता है.
 - V. अध्यक्ष समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.
08. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य :-
- I. यह कि प्रबंधन कमेटी, बोर्ड का मुख्य निकाय होगा जो सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यों को कर सकेगा.
 - II. बोर्ड के पास निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां होगी-
 - a. सभी लोगों तक स्कूली शिक्षा को पहुंचाना.
 - b. सभी लोगों तक नियमित पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड माध्यम से स्कूल शिक्षा का देश विदेश तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करना.

- c. समाज के वंचित वर्ग तक स्कूली शिक्षा को पहुंचाना एवं उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना.
- d. समाज के सभी वर्गों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना.
- e. ओपन स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना.
- f. छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, सुविधा केन्द्र के रूप में व्यक्तियों के समूह एवं संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना.
- g. छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, सुविधा केन्द्र खोलना एवं खोलने की अनुमति प्रदान करना.
- h. छात्रों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए सम्मेलन, सेमिनार, प्रतियोगिता का आयोजन करना.
- i. ऐसे छात्र/छात्राओं को शिक्षा का मौका देना जो किसी कारणवश अपना शिक्षा पूरा नहीं कर पाये हैं.
- j. अध्ययन केंद्र, सूचना केंद्र, स्कूल, क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करना एवं इसके लिए अनुमति प्रदान करना.
- k. बोर्ड के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अध्ययन केंद्र, सूचना केंद्र, स्कूल क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करना एवं इसके लिए अनुमति प्रदान करना.
- l. बोर्ड के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अध्ययन केंद्र, सूचना केंद्र, स्कूल क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करना एवं अध्ययनरत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार प्रदान करना.
- m. बोर्ड के उद्देश्यों से संबंधित जर्नल, शोध पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन एवं अनुवाद करना.
- n. बोर्ड द्वारा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं अथवा अन्य संस्था के साथ मिलकर भारत और विदेश में कार्यालय स्थापित करना, प्रशासन एवं देखरेख करना.
- o. परीक्षा आयोजित करना एवं परीक्षा में शामिल छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र जारी करना.
- p. बोर्ड द्वारा शुल्क निर्धारित करना एवं निर्धारित फीस वसूल करना.
- q. बोर्ड शैक्षणिक विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं, शैक्षणिक संगठनों के साथ समझौता करना.
- r. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में सुधार लाने तथा मुक्त विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना.
- s. बोर्ड के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करना, प्रकाशन एवं मुद्रित करना.
- t. राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों में साझेदारी करना.
- u. बोर्ड ऐसे समिति एवं उपसमिति गठित करेगी जिनका उद्देश्य बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो.
- v. बोर्ड के प्रयोजन हेतु सरकार, अर्धसरकारी संस्थान, कंपनियों, ट्रस्टों या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुदान, सहायता शुल्क, दान उपहार एवं संपत्ति प्राप्त करना या स्वीकार करना.
- w. बोर्ड के लेखा एवं अन्य अभिलेख तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना तथा बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करना.
- x. उपरोक्त समस्त कार्यों के निर्वहन के लिए विद्यालयी शिक्षा के लिए बोर्ड द्वारा आवश्यक अन्य समस्त कार्य करना.

09. अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य :-

- I. बोर्ड के समस्त कार्य की देखरेख करना.
- II. अध्यक्ष आपात स्थिति में बोर्ड की किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा और उसके बाद शीघ्र ही बोर्ड को अपने द्वारा की गयी कार्यवाही के कारणों सहित प्रतिवेदन देगा.
- III. अध्यक्ष इस नियम के अधीन गठित बोर्ड या अन्य समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी होगा.
- IV. अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते की मंजूरी दे सकता है जैसा प्रायोजन निकाय द्वारा चाही गयी हो.
- V. अध्यक्ष ऐसे अन्य अतिरिक्त कार्य कर सकेगा जो बोर्ड इस संबंध में बनाए गये विनियमों के अनुसार सौंपे गये हो.

10. शैक्षणिक सलाहकार समिति :-

- I. बोर्ड संचालित पाठ्यक्रमों के लिए सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन करेगा.
- II. शैक्षणिक सलाहकार समिति नर्सरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के कोर्स के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अध्ययन सामग्री की रूपरेखा, सिलेबस डिजाइन करेगा.

- III. शैक्षणिक सलाहकार समिति ऐसे अन्य कार्य करेगी जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जायेंगे.
 - IV. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक सलाहकार समिति में बोर्ड द्वारा नामित सात प्रतिष्ठित शिक्षाविद् सदस्य शामिल होंगे.
 - V. अध्यक्ष शैक्षणिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा तथा शैक्षणिक सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेगा.
11. सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां एवं कार्य :-
- इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा समय समय पर उसे सौंपे जायेंगे.
और कृत्यों को प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा समय समय पर उसे सौंपे जायेगे.
12. बोर्ड की अन्य समितियां :-
- I. पाठ्यक्रम समिति
 - II. परीक्षा समिति
 - III. मान्यता समिति
13. पाठ्यचर्चा समिति के कार्य :-
- III. पाठ्यक्रम समिति काउंसिल में लागू किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, सिलेबस, एवं पुस्तकों का चयन करेगी.
 - IV. सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक तैयार करना.
14. परीक्षा समिति के कार्य :-
- I. परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य करना जो आवश्यक हो.
 - II. परीक्षा सामग्री तैयार करना या करवाना.
 - III. परीक्षार्थियों का चयन करना, परीक्षा आवेदन जारी करना एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना, रोल नंबर, प्रवेश पत्र एवं समय सारणी जारी करना.
 - IV. परीक्षा शुल्क का निर्धारण करना.
 - V. पेपर सेंटर, परीक्षक, पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष, जांच कर्ता एवं समस्त आवश्यक पदाधिकारियों का चयन कर निर्धारित अवधि तक के लिए मनोनित करना.
 - VI. परीक्षा उपरांत उत्तरपुस्तिका की जांच करा कर परीक्षाफल, अंक पत्र, माइग्रेशन जारी करना.
15. मान्यता समिति के कार्य :-
- I. मान्यता संबंधी समस्त कार्य करना.
 - II. नये स्कूल, अध्ययन केंद्र, खोलने के लिए अनुमति, मान्यता प्रदान करने के लिए अध्यक्ष/सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना.
 - III. मान्यता आवेदन पत्र एवं शर्त, मान्यता/अनुमति शुल्क का निर्धारण करना एवं प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार प्रक्रिया करना.
16. प्रवेश :-
- बोर्ड छात्र/छात्रा को प्रवेश के लिए स्टडी सेंटर, रिजनल सेंटर स्थापित कर उनके माध्यम से प्रवेश लेगा.
17. फीस विवरणिका :-
- बोर्ड समय समय पर समस्त विषयों पर जैसे पाठ्यक्रमों, संबद्धता एवं अन्य सभी विषय के लिए फीस निर्धारित करेगी और निर्धारित फीस में बदलाव भी कर सकेगी.

18. वार्षिक रिपोर्ट :-

बोर्ड के अध्यक्ष/सचिव द्वारा वार्षिक बैठक में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

19. नियम बनाने की शक्ति :-

- I. काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव काउंसिल संचालन संबंधी सभी विषयों पर नियम बना सकेंगे.
- II. काउंसिल के कार्यकारणी द्वारा किसी भी विषय पर बनाये नियम सर्वमान्य एवं लागू होंगे.

डी.पी. जोशी

सचिव

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड
प्रोफेशनल एजुकेशन
